

क्षेत्रीय कार्यालय जोधपुर (राजस्थान) REGIONAL OFFICE JODHPUR (JODHPUR)  
RO/JODH/BSD/2025-26/NBROP/TH/127 DATE- 11.12.2025

### परिसर पट्टेपर लेने हेतु निविदा सूचना

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, जोधपुर अपनी नवीन प्रस्तावित 06 शाखाओं के लिए राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में मुख्य रोड पर उचित प्रवेश, पार्किंग सुविधा और 10-15 केवीए पॉवर 3 फेज कनेक्शन सहित बैंक शाखा हेतु अन्य सभी सुविधाओं के साथ आसपास अधिमानतः भू-तल पर शाखा के क्षेत्र वर्गीकरण के अनुसार कार्पेट क्षेत्रफल (20% कम या ज्यादा) का व्यावसायिक रूप से अनुमोदित परिसर दीर्घावधि पट्टे पर लेने हेतु इच्छुक मकान मालिकों/मुख्तारनामा धारकों से सीलबंद निविदा आमंत्रित करता है।

क्र.	प्रस्तावित शाखा	कार्पेट क्षेत्रफल वांछित
1	गोरा, बाड़मेर	74.32 से 92.90 वर्गमीटर (800-1000 वर्गफीट)
2	शाहपुरा, भीलवाड़ा	83.61 से 120.77 वर्गमीटर (900-1300 वर्गफीट)
3	फलोदी	83.61 से 120.77 वर्गमीटर (900-1300 वर्गफीट)
4	डबोक	83.61 से 120.77 वर्गमीटर (900-1300 वर्गफीट)
5	बनाड़, जोधपुर	74.32 से 92.90 वर्गमीटर (800-1000 वर्गफीट)
6	मंडोर, जोधपुर शहर	111.48 से 167.23 वर्गमीटर (1200-1800 वर्गफीट)

तकनीकी बोली और वित्तीय बोली का प्रारूप बैंक की वेब साइट <http://www.centralbank.bank.in/en/active-tender> से डाउनलोड किया जा सकता है। यह प्रारूप हमारे क्षेत्रीय कार्यालय, अभय चैम्बर, जालोरी गेट, जोधपुर (राज.) -342001 में उपलब्ध है और कार्यालय समय के दौरान प्राप्त किए जा सकते हैं। प्रस्ताव को जमा करने की अंतिम तिथि 31/12/2025 समय सायं 03.00 बजे तक है। सम्पर्क सूत्र – श्री सम्पत गहलोत दूरभाष - +91 9413706885: अर्जुन लाल मीणा+919001142196 टेलीफ़ोन 0291-2664651/52

(विभूति बी. झा)  
क्षेत्रीय प्रमुख



क्षेत्रीय कार्यालय जोधपुर (राजस्थान)

REGIONAL OFFICE JODHPUR (JODHPUR)

RO/JODH/BSD/2025-26/NBROP/TH/127

DATE- 11.12.2025

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, जोधपुर अपनी नवीन प्रस्तावित 06 शाखाओं के लिए राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में मुख्य रोड पर उचित प्रवेश, पार्किंग सुविधा और 10-15 केवीए पॉवर 3 फेज कनेक्शन सहित बैंक शाखा हेतु अन्य सभी सुविधाओं के साथ आसपास अधिमानतः भू-तल पर शाखा के क्षेत्र वर्गीकरण के अनुसार कार्पेट क्षेत्रफल  $\pm$  20% का व्यावसायिक रूप से अनुमोदित परिसर दीर्घावधि पट्टे पर लेने हेतु इच्छुक मकान मालिकों/मुख्तारनामा धारकों से सीलबंद निविदा आमंत्रित करता है। तकनीकी बोली और वित्तीय बोली का प्रारूप बैंक की वेब साइट <http://www.centralbank.bank.in/en/active-tender> से डाउनलोड किया जा सकता है। यह प्रारूप हमारे क्षेत्रीय कार्यालय, अभय चेम्बर, जालोरी गेट, जोधपुर (राज.) -342001 में उपलब्ध है और कार्यालय समय के दौरान प्राप्त किए जा सकते हैं। प्रस्ताव को जमा करने की अंतिम तिथि 31/12/2025 समय सायं 03.00 बजे तक है।

### 1. पूर्वयोग्यता के न्युनतम मानदंड निम्नानुसार होंगे-

- (ए). आवेदक परिसर का/के वास्तविक मालिक अथवा मुख्तारनामा धारक होना/होने चाहिए।
- (बी). आवेदक आयकर निर्धारिती होना/होने चाहिए, उसके/उनके पास पैन नंबर होना चाहिए और और उसकी/उनकी कर विवरणियां अद्यतन होनी चाहिए।
- (सी). भवन का निर्माण सक्षम विकास प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत / संस्तुत प्लान के अनुसार किया होना चाहिए। भवन का रख-रखाव उचित होना चाहिए और भवन 20 साल से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।
- (डी). परिसर प्रमुख व्यवसायिक /रिहाइशी इलाके में उचित आवागमन सुविधा और समर्पित पार्किंग के साथ अधिमानतः भूतल पर स्थित होना चाहिए।
- (ई). भवन विशेष आपदाओं जैसे आग, पानी भरना, बाढ़ आदि से मुक्त हो।
- (एफ). परिसर में 24 घंटे पीने योग्य पानी की सुविधा उपलब्ध हो और स्थानीय महानगरपालिका अधिकारियों से उचित अनुमोदन /स्वीकृति उपलब्ध हो।
- (जी). मकान मालिक द्वारा सभी देयों तथा महानगरपालिका, कार्पोरेशन के सभी बकाया तथा अन्य सांविधिक देयताओं का भुगतान किया गया हो।
- (एच). परिसर पट्टे पर देने हेतु स्थानीय प्राधिकारियों से अधिग्रहण प्रमाणपत्र (अपार्टमेंट के मामले में) उपलब्ध हो।
- (आई). मकान मालिक बैंक को आवश्यक सुधार/परिवर्तन कर, तत्काल खाली परिसर का कब्जा देने की स्थिति में हो।
- (जे). इस निविदा हेतु शाखा के वर्गीकरण अनुसार **बयाना जमा राशि (ई एम डी) डिमांड ड्राफ्ट के रूप में "सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, जोधपुर"** में देय, जमा करना अनिवार्य है। असफल निविदा का ईएमडी एक माह के अंदर वापिस कर दिया जाएगा।
- (के). बयाना जमा राशि (ई एम डी) को तकनीकी प्रस्ताव लिफाफे में रखा जाए। अन्यथा प्रस्ताव अस्वीकृत / रद्द कर दिया जाएगा।
- (एल). सभी क्षेत्रफल उचित रूप से लिखे जाए, कुल क्षेत्रफल और बैंक के लिए प्रस्तावित क्षेत्रफल को उचित रूप से लिखा जाए।

(एम). केवल बैंक के लिए प्रस्तावित पार्किंग का उल्लेख तकनीकी तकनीकी प्रस्ताव में किया जाए।

(एन). क्षेत्रफल को प्रस्तावित शाखों की सूची, क्षेत्र वर्गीकरण, बयाना जमा राशि (ई एम डी) और न्यूनतम कार्पेट क्षेत्रफल निम्न अनुसार है –

क्षेत्र	ई एम डी) डिमांड ड्राफ्ट (Rs.)	कार्पेट क्षेत्रफल वांछित
ग्रामीण	3,000/-	74.32 से 92.90 वर्गमीटर (800-1000 वर्गफीट)
शहरी	5,000/-	92.90 से 139.35 वर्गमीटर (1000-1500 वर्गफीट)
अर्ध-शहरी	3,000/-	83.61 से 120.77 वर्गमीटर (900-1300 वर्गफीट)
मेट्रो	10,000/-	111.48 से 167.23 वर्गमीटर (1200-1800 वर्गफीट)

### प्रस्तावित शाखाओं की सूची

SN	Centre Name	Area	Tehsil	District
1	GORA / गोरा	Rural / ग्रामीण	Sedwa	Barmer
2	Shahapura / शाहपुरा	Semi Urban / अर्ध शहरी	Shahapura	Bhilwara
3	Mandore / मंडोर	Metro / मेट्रो	Mandore	Jodhpur
4	Phalodi / फलोदी	Semi Urban / अर्ध शहरी	Phalodi	Phalodi
5	Banar / बनाड	Rural / ग्रामीण	Mandore	Jodhpur
6	Dabok / डबोक	Semi Urban / अर्ध शहरी	Udaipur	Udaipur

#### निविदा प्रस्तुत करने की पद्धति:

प्रस्ताव सिर्फ सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत करने हैं।

निविदा के लिफाफों के 3 भाग होंगे-

- पहला लिफाफा

**तकनीकी बोली लिफाफा** – इस लिफाफे में विधिवत भरा हुआ आवेदन का भाग I जिसके प्रत्येक पेज पर निविदाकार/रों द्वारा हस्ताक्षर किया गया हो, और आवश्यक कागजात संलग्न किये गये हों। लिफाफा सीलबंद हो और ऊसके उपर “-----शाखा परिसर के लिए तकनीकी बोली (अनुलग्नक ए के अनुसार)” यह लिखा गया हो। साथ ही लिफाफे पर निविदाकार/रों का नाम और पता भी लिखा हो। बयाना जमा राशि (ई एम डी) को तकनीकी बोली के लिफाफे में रखा जाए। अन्यथा प्रस्ताव अस्वीकृत / रद्द कर दिया जाएगा/

- दूसरा लिफाफा

**वित्तीय बोली लिफाफा** – इस लिफाफे में विधिवत भरा हुआ आवेदन का भाग II जिसके प्रत्येक पेज पर निविदाकार/रों द्वारा हस्ताक्षर किया गया हो। लिफाफा सीलबंद हो और ऊसके उपर “-----शाखा परिसर के लिए वित्तीय बोली (अनुलग्नक बी के अनुसार)” यह लिखा गया हो। साथ ही लिफाफे पर निविदाकार/रों का नाम और पता भी लिखा हो।

- तीसरा लिफाफा

पहले और दूसरे लिफाफे को तीसरे लिफाफे में डाल कर सीलबंद करें और ऊसके उपर “-----शाखा परिसर के लिये सीलबंद निविदा” लिखें तथा उसके ऊपर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, अभय चेम्बर, जालोरी गेट, जोधपुर (राज.) -342001 पता लिखें।

2. प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एवं समय – 31/12/2025 को शाम 03.00 बजे तक और प्राप्त प्रस्ताव को खोलने की तिथि 31.12.2025 व समय दोपहर 15.30 बजे (संभावित), या किसी भी बदलाव को टेलीफोन/वैबसाइट पर सुचित किया जायेगा।
  3. प्रस्तुति ओर प्रस्ताव खोलने का स्थान: सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, अभय चेम्बर, जालोरी गेट, जोधपुर (राज.) -342001
  4. उक्त निविदा में किसी भी बदलाव को बैंक वैबसाइट पर अद्यतन किया जाएगा। इसकी सूचना व्यतिगत रूप से नहीं दी जाएगी। आवेदक नियमित रूप से बैंक वैबसाइट का अवलोकन करें।
  5. निविदाकार यह सुनिश्चित करें कि निविदा बैंक को विनिर्दिष्ट तारीख और समय से पूर्व प्राप्त हो। डाक या अन्य कारणों के द्वारा हुए विलम्ब पर विचार नहीं किया जायेगा। विनिर्दिष्ट तारीख और समय के पश्चात प्राप्त निविदाएं अस्वीकार की जाएंगी और यह निर्णय बैंक के संपूर्ण विवेकाधिकार के अधीन होगा।
  6. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया बिना कोई कारण बताएं कोई भी निविदा या सभी निविदाएं स्वीकार या अस्वीकार या निरस्त करने का अपना अधिकार सुरक्षित रखता है तथा किसी भी तकनीकी की विधि से योग्य निविदाकार/रों की निविदा, जो बैंक ठीक समझे, स्वीकार करने का अपना अधिकार सुरक्षित रखता है, भले ही वह न्यूनतम न हो।
  7. सिर्फ शर्त रहित निविदा ही स्वीकार की जाएगी। सशर्त निविदाएं अस्वीकार की जाएंगी। यदि कोई निविदाकार, जो कोई शर्त रखना चाहता है और उसमें वित्तीय तात्पर्य है तो वह अपनी निविदा उचित रूप से भरे और निविदा में कोई भी शर्त न रखें।
  8. बैंक अपनी आवश्यकता के अनुसार तकनीकी निविदा से प्राप्त सूचना यथा प्रस्तावित साइट का स्थान, प्रस्तावित परिसर का क्षेत्रफल, मुख्य रास्ते से आवाजाही, उपलब्ध पार्किंग जगह, सुविधाएं और अन्य बुनियादी सुविधाएं (लिफ्ट, बैंक अप डीजी सेट, आदि) के आधार पर तथा अन्य आवश्यकताओं के अनुसार निविदाएं शॉर्टलिस्ट करेगा।
  9. तकनीकी बोली के आधार पर शॉर्टलिस्टेड निविदाओं की वित्तीय बोलियां किसी अगली तारीख को खोली जाएंगी। जिसकी सूचना शॉर्टलिस्टेड निविदाकारों को बाद में दूरभाष से दी जाएंगी।
  10. संभावित प्रस्तावों के चयन के सम्बंध में बैंक का निर्णय अंतिम होगा।
  11. विवाद के मामले में बैंक का निर्णय अंतिम और सभी पर बाध्यकारी होगा।
  12. **किराया:** मकान मालिक से कब्जा लेने की तारीख से बैंक किराये का भुगतान शुरू करेगा। कब्जा लेने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि मकान मालिक द्वारा उचित प्राधिकारियों से आवश्यक अधिग्रहण प्रमाणपत्र प्राप्त किया गया है और मकान मालिक द्वारा सहमत किये गये परिवर्तन बैंक की संतुष्टि तक किये गये हैं। जमीन के क्षेत्रफल के आधार पर परिसर की माप संयुक्त रूप से ली जाएगी।
  13. **पट्टा विलेख का निष्पादन:** बैंक द्वारा परिसर पट्टेपर लिये जाने पर पट्टा विलेख का निष्पादन बैंक के निर्धारित प्रारूप में किया जायेगा और उसका पंजीकरण उचित प्राधिकारियों के पास किया जायेगा। पंजीकरण से सम्बंधित स्टैम्प ऊटी प्रभार का भुगतान मकान मालिक और बैंक को 50:50 आधार पर करना होगा।
- कृते सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया,**

(विभूति बी. झा)  
क्षेत्रीय प्रमुख

## (तकनीकी बोली का प्रारूप)

अनुलग्नक - ए

प्रति,

**क्षेत्रीय प्रमुख**

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय,  
अभय चेम्बर, जालोरी गेट,  
जोधपुर (राजस्थान)-342001

विषय : ----- शाखा के परिसर के लिए तकनीकी बोली.

संदर्भ : 1. RO/JODH/BSD/2025-26/NBROP/TH/127

DATE- 11.12.2025

2. आपका दिनांक \_\_\_\_\_ के \_\_\_\_\_ समाचार पत्र में और बैंक की वेब-साईट पर प्रकाशित विज्ञापन।

स्वामित्व विवरण			
1	मालिकों के नाम एवं पते	टेली/मोब नंबर	ई मेल
2	क्या मुख्तारनामा (पावर ऑफ अटार्नी)धारक को परिसर पट्टे/उप पट्टे पर देने का अधिकार है: हाँ / नहीं		
3	मुख्तारनामा धारक का नाम एवं पता  टेलीफोन/मोबाइल नंबर  ई मेल पता		
4	प्रस्तावित परिसर का पता		
5	सम्पत्ति पर कोई बकाया प्रभार (बंधक/पट्टा/सुविधाधिकार(easement)/उपहार/सम्पत्ति पर अन्य कोई प्रभार)		
6	सम्पत्ति पर कोई अन्य बकाया(कर/बिजली/टेलीफोन आदि का बकाया  परिसर का प्रकार		
7	यदि परिसर निर्माणाधीन है  क्या ऋण की आवश्यकता है? यदि हाँ तो विवरण दें.  निर्माण का दर्जा  परिसर का कब्जा मिलने की संभावित तारीख		
8	यदि परिसर कब्जा के लिए तैयार है -  निर्माण का वर्ष  भवन/निर्माण का प्रकार. भवन के निर्माण का विवरण आरसीसी निर्माण अथवा भारवाही ईट निर्माण कार्य (कृपया स्पष्ट करें)		

	क्या स्थानीय प्राधिकारियों से प्लान स्वीकृत है (स्वीकृत भवन प्लान की प्रतिलिपि संलग्न करें) – हां/नहीं.	
	क्या विभाग से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त किया है – हां/नहीं	
	क्या कब्जा प्रमाणपत्र प्राप्त हुआ है (प्रतिलिपि संलग्न करें) – हां/नहीं	
	क्या मुख्य रास्ते से सीधा प्रवेश उपलब्ध है – हां/नहीं	
	क्या लिफ्ट की सुविधा उपलब्ध है – हां/नहीं.	
2		
	हक विलेख (हक विलेख की प्रतिलिपि संलग्न करें)	
	क्या सभी सांविधिक देयताएं पूर्ण की गई हैं (कृपया आयकर विवरणी, महानगरपालिका कर रसीद - नवींतम और अन्य समर्थक प्रलेख संलग्न करें.) – हां/नहीं.	
9	<b>स्थान</b>	----- ---
	भवन का प्रकार - आवासीय/ संस्थात्मक/वाणिज्य	
	नागरी सुविधाओं का विवरण जैसे, परिसर एवं उसके आस-पास के क्षेत्र में उपलब्ध स्कूल, कालेज, अस्पताल	
	परिसर एवं उसके आस-पास की वित्तीय संस्थाओं का विवरण	
	पोलीस स्टेशन, अग्निशमन केन्द्र, डाक घर और परिवहन केन्द्र से समीपता	
	ऐसे क्षेत्र में स्थित हैं जो अपराध प्रवण अथवा असुरक्षित क्षेत्र नहीं माना गया है और कम आवाजाही वाला क्षेत्र भी नहीं है..	
	क्या परिसर का स्थान विशेष आपदाओं जैसे अग्नि, बाढ़, पानी भरना आदी से मुक्त है. – हां/नहीं.	
10	<b>मंजिल एवं क्षेत्र</b>	----- ----
	बिल्ट-अप क्षेत्र, वर्ग मीटर/वर्ग फुट में	
	कार्पेट क्षेत्र, वर्ग मीटर/वर्ग फुट में	
	तल मंजिल	
	प्रथम तल	
	अन्य, यदि कोई है	
	कुल कार्पेट क्षेत्र, वर्ग मीटर/वर्ग फुट में	
	सीलिंग की ऊंचाई	
	अन्य मंजिलों के किरायेदारों का विवरण	
	स्ट्रॉग रुम का निर्माण भारतीय रिज़र्व बैंक के विनिर्देशों के अनुसार सुरक्षा व्यवस्था के साथ करने हेतु सहमत है.	हां

	एटीएम लगाने के लिए सहमति	
	एटीएम मशीन लगाने के लिए रुफ टॉप पर वी सेट ईंटिना लगाने के लिए जगह (ग्रामीण/अर्धशहरी क्षेत्रों के लिए लागू)	
	3-फेस पावर सप्लाय की उपलब्धता:	हाँ/नहीं.
	स्थानीय प्राधिकारियों से सांविधिक अनुमति (यदि आवश्यक है)	
11	उपलब्ध सुविधाएं	
	पानी की सुविधा उपलब्ध है	हाँ/नहीं
	बैंक स्टाफ/ग्राहकों के लिए पार्किंग की व्यवस्था उपलब्ध है.	हाँ, ..... वर्ग मीटर/वर्ग फुट
		3
	क्या 3-फेस (20के वीए) पावर सप्लाय उपलब्ध है या की आपूर्ति की जाएगी ?	
	महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग-अलग प्रसाधन गृह	
	पूरे वर्ष आने जाने के लिए रास्ता है	हाँ/नहीं
	उचित हवा-प्रकाश (वेन्टिलेशन) उपलब्ध है	हाँ/नहीं
	अन्य उपलब्ध सुविधाओं का विवरण	
	सामने का भाग (कम से कम 6-8 मीटर/20-25 फुट)	
	रास्ते से शाखा तक रैम्प बनाने की संभावना	
	बाहरी दरवाजे पर कोलॉप्सेबल शटर, खिड़कियों पर जालियां और बाहरी दीवारों पर झरोखे (वैन्टिलेटर्स)	
	साधारण दरवाजे के साथ मुख्य प्रवेश द्वार और एक अतिरिक्त/कोलॉप्सेबल गेट	
	क्या उचित सफाई/मल-जल निकासी व्यवस्था उपलब्ध है	
	क्या पावर/विद्युत आपूर्ति(पर्याप्त पावर आपूर्ति) उपलब्ध है: हाँ/नहीं.	
	क्या तडित - चालक यंत्र उपलब्ध है – हाँ/नहीं	
12	क्या आबद्ध विद्युत आपूर्ति (जनरेटर) उपलब्ध है – हाँ/नहीं.	
13	क्या पर्याप्त जल आपूर्ति उपलब्ध है – हाँ/नहीं.	
14	निविदा (तकनीकी एवं वित्तीय बोली, दोनों) के सभी पृष्ठों पर सिर्फ प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर होने चाहिए	
15	उद्धृत दर, पट्टे की अवधि (बढ़ाई गई अवधि यदि कोई है तो उसे शामिल कर), तक के परिसर से सम्बंधित सभी कर, उपकर, पार्किंग प्रभार आदि सहित और तकनीकी बोली के प्रारूप के अनुसार तीनों खानों में (दर, कार्पेट क्षेत्र, कुल देय किराया) विवरण भर कर और सिर्फ परिसर के मालिक/मुख्तारनामा धारक द्वारा ही हस्ताक्षरित हो.	
16	मै/हम प्रस्तावित परिसर में आपके बैंक के विनिर्देशों के अनुसार स्ट्रॉग रूम का निर्माण करने और प्रस्तावित परिसर में एटीएम के लिए सिविल स्ट्रॉक्चर के निर्माण सहित, बैंक को आवश्यक परिवर्तन हमारी लागत पर करने की भी सहमति देता/देती हुँ/देते हैं	
17	मेरे/हमारे द्वारा दिया गया यह प्रस्ताव वित्तीय बोली खोलने की तारीख से 4 माह की अवधि तक वैध रहेगा .	
18	मै/हम आपके बैंक के मानक प्रारूप के अनुसार(मानक प्रारूप संलग्न है) पट्टा विलेख निष्पादित करने के लिए सहमत हुँ/हैं.	

19	_____ वर्ष की मूल पट्टा अवधि खत्म होने पर किराये में अपेक्षित वृद्धि. नोट: सिर्फ प्रतिशत में ही उद्धृत करें। किराया न लिखें।	_____ वर्ष के लिए, 5 वर्ष की निश्चित अवधि के लिए और किराये में _____ % वृद्धि के साथ, 5 वर्ष के और दो विकल्प उपलब्ध होंगे। (सिर्फ % लिखें, राशि नहीं।)
20	अन्य कोई नियम एवं शर्तें (कृपया विविर्दिष्ट करें)।	
	(ए) अतिरिक्त वित्तीय भारः	
	(बी) गैर- वित्तीय भारः	
21	अन्य कोई संबंध जानकारी	

**नोट :** किसी भी मंजिल का कार्पेट क्षेत्र, वह छतदार मंजिल क्षेत्र होगा जिसमें भवन का निम्न भाग शामिल न हो।

1. स्वच्छता स्थान, ऐसे विशिष्ट मामले को छोड़कर जहाँ अन्यथा ऐसे निर्दिष्ट किया गया हो;
2. पूरा बन्द और आंतरिक पैसेज एवं कोरीडोर के रूप में उपयुक्त गैलरी को छोड़कर अन्य बरामदा।
3. कोरीडोर्स और पैसेजेस, उन्हें छोड़कर जो सिवाय युनिट के आंतरिक पैसेज एवं कोरीडोर के रूप में उपयुक्त हो,
4. प्रवेश हॉल और पोर्चेस, वर्टीकल सन ब्रेक्स बॉक्स लॉवर्स, स्टेअरकेस, लिफ्ट के लिए शाफ्ट और मशीन रुम, बैरासाइटीस \*, लाफ्ट, गैरेज।
5. क्षेत्र में होने वाले 2 वर्ग फुट से अधिक के एअर कंडिशनिंग डक्ट और एअर कंडिशनिंग प्लांट रुम, मल - जल पाईप और कूड़ा-कचरा डक्ट।

**यहाँ अथवा तकनीकी बोली में कहीं भी दर नहीं दर्शाई जाए।**

#### **घोषणा पत्र**

मै/हम पुष्टि करते हैं कि, उपर्युक्त विवरण मेरे/हमारे श्रेष्ठतम ज्ञान के अनुसार सही हैं। यदि आप हमारे परिसर को उचित समझते हैं तो मै/हम आपके बैंक के मानक प्रारूप के अनुसार सहमति देंगे।

**स्थान :**

**हस्ताक्षर :**

**दिनांक :**

**नाम :**

**संलग्न :**

1. स्वामित्व के प्रमाण के प्रलेख (कर रसीद/बिजली का बिल).
2. स्थान एवं भवन का नक्शा ।
3. माप से बनाया हुआ स्केच प्लान.
4. बाहरी एवं आंतरिक भाग दर्शने वाले फोटोग्राफ
5. पूर्णता प्रमाणपत्र
6. निर्माण की अनुमति
7. भवन के उपयोग की अनुमति
8. सक्षम प्राधिकारियों से प्रमाणपत्र
9. डीडी, ई एम डी के रूप में (तकनीकी बोली लिफाफे में )

(वित्तीय बोली का प्रारूप )

अनुलग्नक – बी

प्रति,

क्षेत्रीय प्रमुख  
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय,  
अभय चेम्बर, जालोरी गेट,  
जोधपुर, (राजस्थान) -342001

विषय : ----- में परिसर के लिए वित्तीय बोली.

संदर्भ : 1. निविदा संख्या - RO/JODH/BSD/2025-26/NBROP/TH/127 DATE- 11.12.2025  
2. आपका दिनांक \_\_\_\_\_ के \_\_\_\_\_ समाचार पत्र में और बैंक की वेब-साईट पर प्रकाशित विज्ञापन।

महोदय,

मेरे /हमारे द्वारा प्रस्तुत \_\_\_\_\_ में स्थित परिसर से सम्बंधित तकनीकी बोली की निरंतरता में मैं/हम एतद्वारा परिसर पट्टे/किराये पर देने का प्रस्ताव निम्नानुसार रखते हैं।

क्र. सं.	मंजिल	प्रति वर्ग मीटर/फीट कार्पेट क्षेत्र का किराया	कुल किराया (सभी कर सहित) (प्रति माह रु. में देय)
कुल			

प्रति वर्ग मीटर कार्पेट क्षेत्र के उद्धृत दर में सभी कर, जीएसटी उपकर, सेवा कर, पार्किंग प्रभार शामिल हैं, जिसका परिकलन तकनीकी बोली के मद संख्या 09 के अनुसार किया गया है।

भवदीय/ भवदीया,

(नाम : \_\_\_\_\_)

स्थान : \_\_\_\_\_

तारीख : \_\_\_\_\_